

## PRESS NOTE

लहराया जीत का परचम , शिवा शिक्षा सदन की अनु कुमारी ने।

( यू.पी.एस.सी में प्राप्त किया दूसरा स्थान )



शिवा शिक्षा सदन की छात्रा “अनु कुमारी “ सुपुत्री श्री बलजीत सिंह ने अपना नाम सिविल सर्विसेज़ -२०१७ परीक्षा में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त कर न केवल विधालय बल्कि सोनीपत जिले के साथ- साथ हरियाणा प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया ।साधारण परिवार से सम्बन्धित , निजी कंपनी से रिटायर पिता की बेटी अनु ने २००३ में १२वीं कक्षा उत्तीर्ण की। स्कूली शिक्षा के दौरान भी अनु होनहार एवं प्रतिभाशाली छात्रा रही है । पढ़ाई के साथ-साथ वह सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों में भी सदैव बढ़ -चढ़ कर हिस्सा लेती थी। हर्ष का विषय है कि अनु का सुपुत्र कुमार वियान दहिया भी विधालय का छात्र है। पढ़ाई पूरी कर अनु ने सात साल नौकरी की पर संतुष्टि नहीं मिली और जीवन में कुछ कर दिखाने की चाह हावी रही । नौकरी छोड़ अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए , अनु ने २०१६ में भी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में हिस्सा लिया था , उसे सफलता की सीढ़ी बनाते हुए २०१७ में दोबारा परीक्षा दी और पूरे समर्पण से तैयारी कर समस्त भारत में दूसरा रैंक हासिल किया । एक पत्नी , एक माँ का पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ अनु का यह सफ़र काफ़ी

चुनौतीपूर्ण रहा । दृढ़ -निश्चय , सबल इच्छा शक्ति एवं सतत प्रयास से अन्ततः सफलता ने कदम चूमे और अपने स्वजनों , अध्यापकगण तथा अपनी जन्मभूमि को गौरवान्वित किया । यह शैक्षणिक विजय शिवा शिक्षा सदन के लिए कोहिनूर के समान है । हमें गर्व है कि हम समाज के प्रति जागरूक नागरिक भारत माँ को समर्पित करने में समर्थ हैं। इस उपलब्धि पर अनु ने स्कूल के अध्यापक एवं प्रबन्धक समिति का हृदय की गहराईयों से आभार जताया । इस उँचाई को छू लेने पर विधालय के प्रबन्धक श्री वीरेंद्र बंसल जी ने छात्रा को भाव-पूर्ण बधाई दी एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

